

विद्या भवन बालिका विद्यापीठ

लखीसराय

दिनांक --- 03-06-2020

कक्षा --- द्वितीय

विषय --- हिन्दी

विषय शिक्षिका --- निक्की कुमारी

सुप्रभात बच्चों ,

बच्चों कल की कक्षा में आपने पाठ - 4 को पढा था ,जिसका शीर्षक है - "पहाड़ से बड़ी लगन " ।बच्चों लगन वह गुण है, जिसके बल पर मनुष्य बड़ी से बड़ी काम भी पूरा कर सकता है । सीधे शब्दों में लगन का अर्थ है । किसी काम को करने की प्रतिज्ञा लेना और उसके अंतिम मुकाम तक पहुँचना । चाहे वो पढाई हो या कोई अन्य काम ।

बच्चों आज आपलोगों को पाठ के आधार पर प्रश्न बनाना है ।

2) पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का निशान(✓) लगाइए --

क) दशरथ माँझी का जन्म इस सन् में हुआ था --

(अ) सन् 1934 में

(ब) सन् 1954 में

(स) सन् 1984 में

ख) दशरथ माँझी की पत्नी का नाम था--

(अ) सावित्री

(ब) फाल्गुनी

(स) मधुमिता

ग) फाल्गुनी को समय पर नहीं पहुँचाया जा सका था --

(अ) घर

(ब) खेत

(स) अस्पताल

घ) दशरथ माँझी की धुन देखकर लोग उन्हें क्या कहने लगे ?

(अ) पागल

(ब) सनकी

(स) मेहनती

3) इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

क) दशरथ माँझी का बचपन कैसे बीता था?

उत्तर-- दशरथ माँझी का बचपन अभावों में बीता था ।

ख) दशरथ माँझी की माँ ने उन्हें क्या सिखाया था ?

उत्तर-- दशरथ माँझी की माँ ने सिखाया था, कि लगन से अपने काम में लगे रहना चाहिए । इसमें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है।

ग) दशरथ माँझी का नाम अमर कैसे हो गया ?

उत्तर -- दशरथ माँझी के अच्छे कर्मों की वजह से उनका नाम अमर हो गया।

4) उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए :-

क) हमें _____ से अपने काम में लगे रहना चाहिए। (लगान/ लगान)

ख) गया _____ में स्थित है। (पहाड़ /बिहार)

ग) दशरथ माँझी की मृत्यु _____ के कारण हो गई । (कैंसर /टीवी)

घ) दशरथ माँझी ने _____ को काटकर रास्ता बनाया था । (पहाड़ /पेड़)

ड) दशरथ माँझी की लगन ने उन्हें _____ बना दिया । (विजेता /अमर)

वर्ग कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें , तथा याद करें ।